

परिवारों के लिए COVID-19 से सम्बन्धित सलाह

*Greater Sydney में स्कूल के संचालन

NSW शिक्षा विभाग और NSW हेल्थ COVID-19 पर प्रतिक्रिया करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

NSW हेल्थ से मिली सलाह के पश्चात *Greater Sydney (इसमें Blue Mountains, Central Coast, Wollongong और Shellharbour शामिल हैं) में स्कूलों की शिक्षा घर से लागू है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुले हैं जिन्हें इनकी आवश्यकता है। यदि किसी विद्यार्थी या माता-पिता या बच्चे/बच्ची को COVID-19 के हल्के से हल्के लक्षण ([COVID-19 symptoms](#)) भी हैं, तो यह ज़रूरी है कि वे स्कूल न आएँ और तब तक स्कूल न आएँ जब तक उनका नेगेटिव टेस्ट परिणाम न आ जाए या वे लक्षणमुक्त न हो जाएँ।

मास्क और चेहरे को ढकना

स्कूल पर उपस्थिति के समय निम्नलिखित के लिए हर समय स्कूल के अंदर के वातावरण में मास्क पहनना या मुंह ढक कर रखना आवश्यक है:

- कक्षा 7 या इससे बड़ी कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी।
- सभी कर्मचारी।

इन नियमों पर कुछ अपवाद लागू हैं। और अधिक जानकारी के लिए NSW सरकार की वेबसाइट पर फेस मास्क से जुड़े नियम ([Face mask rules on the NSW Government website](#)) देखें।

विज़िटर (आगंतुक)

स्कूल स्थलों पर गैर-आवश्यक आगंतुकों को आने की अनुमति नहीं है।

यह ज़रूरी है कि माता-पिता और देखभालकर्ता अपने स्कूल के छात्र/छात्रों को स्कूल ड्राप ऑफ और पिक अप (छोड़ने और लेने आने) में हुए बदलावों से सम्बन्धित सलाह का अनुपालन करें। इसमें बच्चों को ड्राप ऑफ और पिक अप करते समय गाड़ी में बैठे रहना शामिल है यदि ऐसा करना सुरक्षित हो तो। इसमें स्कूली घंटों के बाद की देखभाल (Out of School Hours Care (OOSH)) के लिए ड्राप ऑफ और पिक अप शामिल नहीं है क्योंकि इसके लिए साइन इन और आउट करने से जुड़ी कार्यविधियाँ आवश्यक हैं।

यह ज़रूरी है कि माता-पिता:

- अपने स्थानीय क्षेत्र के लिए शारीरिक दूरी की सलाह का अनुपालन करें और स्कूल के गेट्स (प्रवेश-द्वारों) के बाहर इकट्ठे होने से परहेज करें
- स्कूल के मैदानों के बाहर रहें – विशिष्ट उद्देश्यों के लिए स्कूलों (Schools for Specific Purposes (SSP)), असुरक्षित विद्यार्थियों या विकलांगता से ग्रस्त विद्यार्थियों के संबंध में कुछ अपवाद लागू हो सकते हैं।
- मास्क पहनने की आवश्यकताओं की पालना करें और स्कूल में प्रवेश करते समय Service NSW QR code का प्रयोग करके साइन इन करें।

HSC विद्यार्थी

HSC विद्यार्थियों का उस परिस्थिति में कोर्सवर्क (पाठ्यक्रम का काम), प्रोजैक्ट वर्क (कार्य) और परीक्षा की तैयारी करने के लिए स्कूल में उपस्थित होने के लिए समर्थन किया जाएगा, यदि घर से ऐसा नहीं किया जा सकता हो। उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों के लिए COVID से जुड़े कड़े सुरक्षा अभ्यासों की पालना करना आवश्यक होगा।

टेलीफोन दुभाषिया सेवा

यदि आपको अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो कृपया अपने स्कूल के प्रिंसिपल को फोन करें। यदि अपनी पूछताछ में सहायता देने के लिए आपको दुभाषिए की ज़रूरत है तो कृपया टेलीफोन दुभाषिया सेवा को 131 450 पर फोन करें और अपनी भाषा में दुभाषिया के लिए निवेदन करें। यह सेवा आपके लिए नि:शुल्क है।